



# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4]

No. 4]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 1978/पौष 14, 1899

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 1978/PAUSA 14, 1899

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 4(अ) -- प्राधान-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में प्रागे संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित आदेश की रचना करती है अर्थात् :-

1. इस आदेश की निर्यात (नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश, 1978 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-I के भाग 'ख' में क्रम संख्या 73(2) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :- 73(2) हाथ से बने हुए ऊनी कालीन और गलीचे फारसी और मोबारिक डिजाइनों को छोड़कर।
3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खुला सामान्य साइसेस-3 में क्रम संख्या-44(1) और 44(2) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :-

1	2	3	4
44(1)	32000 गॉड प्रति वर्ग मीटर तक फारसी और मोबारिक डिजाइनों के हाथ से बने हुए ऊनी कालीन	ख-73(1)	भारत के साथ सामान्य स्थल सीमा रखने वाले देशों को छोड़कर सभी गन्तव्य स्थानों को निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :- (1) 85 रुपए प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क की निम्नतम कीमत पर (2) निर्यात की अनुमति पूर्णरूपेण बिन्की के आधार पर जाएगी।
44(2)	हाथ से बने हुए ऊनी कालीन और गलीचे, फारसी और मोबारिक डिजाइनों को छोड़कर	ख-73(2)	1 भारत के साथ सामान्य स्थल सीमा रखने वाले देशों को छोड़कर एशिया में विभिन्न कालीन और गलीचों को सभी गन्तव्य स्थानों को निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :- (1) 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क की निम्नतम कीमत पर।

1	2	3	4
			(2) 'एलुरु टाइप' कार्पीनो और गलीचो के सम्बन्ध में शिनाख्त के उद्देश्य के लिए एक प्रमाण-पत्र या तो विभिन्न स्थानों पर स्थित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के किसी क्षेत्रीय कार्यालय से या बारगल में स्थित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के मार्केटिंग और एम्प्लेमेंटेशन अधिकारी से प्रस्तुत किया जाए।
			(3) निर्यात सम्पूर्ण बिक्री के आधार पर होगा।
			2 भारत के साथ सामान्य सीमा रखने वाले देशों को छोड़ कर अन्य सभी गन्तव्य स्थानों को कार्पीनो और गलीचो की अन्य किस्मों का निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :—
			(1) 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर अहाज पर्यन्त नि शुल्क की निम्नतम कीमत पर,
			(2) निर्यात सम्पूर्ण बिक्री के आधार पर होगा।

[संख्या ई(सी) प्रो. 1977/ए. एम(34)—मि० [सं० 2/21/77-ई I से जारी]  
का०वे० शेवाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

#### MINISTRY OF COMMERCE

#### ORDER

New Delhi, the 4th January, 1978

#### EXPORT TRADE CONTROL

**S. O. 4(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) first Amendment Order, 1978.
2. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 the existing entry against S. No. 73 (ii) shall be substituted by the following :—  
73(ii) Hand woven woollen carpets and rugs except of Persian and Mobarik designs.
3. In Exports (Control) Order, 1977 in OGL-3, the existing entries against S. No. 44(i) and 44(ii) shall be substituted by the following :—

1	2	3	4
44 (i) Hand Woven woollen carpets of Persian and Mobarik designs upto 32000 knots per sq. metre.	B 73(i)		Export shall be allowed to all destinations, except to countries having a common land frontier with India subject to the following conditions :— (i) Floor price of Rs. 85/- per sq. metre fob. (ii) export shall be allowed on outright sale basis.
44 (ii) Hand woven woollen carpets and rugs except of Persian and Mobarik designs.	B 73(ii)		1. Export of carpets and rugs manufactured in Eluru allowed to all destinations, except to countries having common land frontiers with India subject to the following conditions. (i) Floor price of Rs. 50/- per sq. metre fob. (ii) A certificate for the purpose of identification in respect of "Eluru type" carpets and rugs is produced from either one of the regional offices of All India Handicraft Board, located at various places, or the office of the Marketing and Extension officer of All India Handicrafts Board, situated at Warrangal. (iii) Export shall be on outright sale basis. 2. Export of other types of carpets and rugs allowed to all destinations except to countries having a common land frontier with India, subject to the following conditions :— (i) Floor price of Rs. 65/- per sq. metre fob. (ii) Export shall be on outright sale basis.

[No. E(C)O, 1977/AM(34)] [Issued from File No. 2/21/77/E I]  
K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports.